

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने 25 क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 05.01.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के द्वारा गठित की गयी उ0नि0 अवनीश कुमार यादव मय हमराही आरक्षी विवेक कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने थानाक्षेत्र के ग्राम मुढारी से एक नफर अभियुक्त प्रदीप सोनी पुत्र सुखनन्दन सोनी उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम मुढारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को एक झोले में 25 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब झूम ब्रांड के साथ नियमानुसार पुलिस हिरासत में लिया गया, अभियुक्त के कब्जे से बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 08/2023 धारा 60 आबकारी अधि. का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त -

प्रदीप सोनी पुत्र सुखनन्दन सोनी उम्र करीब 42 वर्ष नि. ग्राम मुढारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

बरामद माल का विवरण:-

एक झोले में 25 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब झूम ब्रांड

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ.नि. अवनीश कुमार यादव
2. का. विवेक थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा



क्षेत्राधिकारी यातायात द्वारा सड़क सुरक्षा माह के दृष्टिगत जनपदीय यातायात पुलिस कर्मियों को यातायात नियमों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देते हुये

यातायात नियमों की दिलायी गयी शपथ -

05 जनवरी 2023 से 04 फरवरी 2023 के मध्य शासन के निर्देश पर सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में आज दिनांक 06.12.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर इस दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में क्षेत्राधिकारी यातायात सुश्री हर्षिता गंगवार द्वारा पुलिस लाइन अवस्थित परेड ग्राउण्ड में जनपदीय यातायात पुलिस कर्मियों को सड़क सुरक्षा अभियान के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया तथा सभी को यातायात नियमों की शपथ दिलायी गयी।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी यातायात द्वारा यातायात पुलिस कर्मियों से अपील की गयी कि आप सभी यातायात नियमों का पालन करें व करायें, आप सब एक माध्यम हैं, आप अपने स्तर से जितने भी लोगो को यातायात नियमों यथा- वाहन चलाते समय हेलमेट लगाने, शीटबेल्ट पहनने, निर्धारित गति व दिशा में वाहन चलाने इत्यादि के बारे में अवश्य जागरूक करें।



थाना चरखारी पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.01.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान वांछित वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारी के तहत प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार शुक्ल द्वारा उ0नि0 रामचन्द्र व कां0 यशपाल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने ग्राम सूपा से 01 नफर वारंटी अभियुक्त रविन्द्र राजपूत पुत्र बुधुवा नि0 ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा केस नं0 240/18 धारा 427 IPC ता.पेशी 23.01.2023 माननीय न्यायालय जे.एम. कोर्ट चरखारी से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया । अभि0 उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रविन्द्र राजपूत पुत्र बुधुवा उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ.नि.रामचन्द्र
2. का0 यशपाल थाना चरखारी जनपद महोबा



महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **06.01.2023** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी ।

जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।

यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों के ई-चालान किये गये।



महोबा पुलिस